



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2012/पौष 14, 1933

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2012/PAUSA 14, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिमूचना

नई दिल्ली 4 जनवरी 2012

का.आ. 19(अ) — मोटरयान अधिनियम, 1930 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्माणित ट्रायल के हरियाणा में पंजीकरण हेतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है —

### अनुसूची

1. ट्रेलरों का विषय : स्वतंत्र ट्रेलर
2. स्वामी : मै श्रेड डेक्कपमेंट फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड गुडगाँव
3. निर्माता : मै गल्डहार्फम, जर्मनी
4. ट्रेलरों की संख्या : छह
5. ट्रेलरों का वर्णन :

चैसी सं.	धुरियों की संख्या	टायरों की सं., विवरण, आकार	माप (लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई)	खाली वजन (कि.ग्रा.)	प्रति धुरी अधिकतम लदान भार (कि.ग्रा.)	भार सकल (कि.ग्रा.)
डबल जॉइन्ट एचपीएस 80बी 0033715	8 (प्रत्येक पंक्ति में 2 धुरि)	64 टायर, प्रत्येक धुरि में 8 टायर	15700 मिमि. × 3000 मिमि. × 1175 मिमि.	27,550	26,000	2,08,000
डबल जॉइन्ट एचपीएस 82बी 0033716	8 (प्रत्येक पंक्ति में 2 धुरि)	48 टायर, प्रत्येक धुरि में 8 टायर, 215/75 आर 17.5	12400 मिमि. × 3000 मिमि. × 1175 मिमि.	20,750	26,000	1,66,000

डब्लूजीओटीएचपीएस	4 (प्रत्येक	32 टायर, प्रत्येक	1000 मिमि. ×	13,850	26,000	1,04,000
49बी 0033709	पॉन्क में	धुरि में 8 टायर,	3000 मिमि. ×			
डब्लूजीओटीएचपीएस	2 धुरि)	215/75	1175 मिमि.			
45बी 0033710		आर 17.5				
डब्लूजीओटीएचपीएस						
47बी 0033711						

6. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अध्वधीन है :—

- (i) इन ट्रेलरों का प्रचालन कभी-कभार किया जाएगा।
- (ii) तो नि वि/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न मंडलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झड़ियाँ और बतियाँ लगी होनी चाहिए, वेहवा यह होगा कि लदे हुए वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप में यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलरों का जाऊँ का अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) वाहनों के आवागमन कार्यक्रम का मूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक अधिकारियों को दी जानी चाहिए, ताकि उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (vi) ट्रेलरों का अलग पंजीकरण किया जाएगा न कि संयुक्त रूप से।
- (vii) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (viii) बड़े आकार के कार्गो को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (ix) वे राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित गति सीमा का पालन करेंगे।
- (x) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बिना चलाया जाना चाहिए।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों को अधिकतम गति दस कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों को सम्पूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्सों पर पीले एवं काले रंग में चमड़ा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत् लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप में गाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएंगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सक। तथा अतिरिक्त, माल का ज़रूरी भाग पूरी तरह से एक लाल पगवनी/परवर्ती टेप से ढका होना चाहिए ताकि रात्रि के समय उस भाग निर्विघ्न रूप में दिखाई दे।
- (xiii) मै. श्रेई इक्वूपमेंट फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, गुडगाँव, सड़कों अथवा सड़क ढांचा अन्य सड़क पर्याप्तता/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण पतन अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति का राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (xiv) मै. श्रेई इक्वूपमेंट फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, गुडगाँव, ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो इस संबंध में राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं।
- (xv) मै. श्रेई इक्वूपमेंट फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, गुडगाँव, एम वाहनों का प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट एस प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।
- (xvi) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में एक विशेष प्रविष्टि की जाए कि वाहनों के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए मार्गदर्शन प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे।

7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा बिक्री दस्तावेज (बीजक, सभी करों के भुगतान का सबूत) प्रस्तुत करने के बाद ही हरियाणा राज्य में ट्रेलरों का पंजीकरण किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी-11042/168/2011-एम.वी.एल.]

नितिन र. गोकर्ण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2012

**S.O. 19(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-section (3)(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act 1988 the Central Government hereby accords approval to the registration in Haryana of following trailers with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto :—

## SCHEDULE

1. Type of trailers : Independent trailers
2. Owned by : M/s. Srei Equipment Finance Private Limited, Gurgaon
3. Manufactured by : M/s. Goldhofer, Germany.
4. No. of trailers : Six
5. Description of trailer :

Chassis No.	No. of Axles	No., Description, Size of tyres	Measurements (Length × Width × Height)	Unladen Weight (in Kgs.)	Maximum Per Axle Load (in Kgs.)	Weight/ Gross (Kgs.)
WGOTHPS 80B0033715 WGOTHPS 82B0033716	8 Rows (2 in line axles)	64, eight in each row, 215/75 R 17.5	15700 mm × 3000 mm × 1175 mm	27,550	26,000	2,08,000
WGOTHPS 60B0033714	6 Rows (2 in line axles)	48, eight in each row, 215/75 R 17.5	12400 mm × 3000 mm × 1175 mm	20,750	26,000	1,56,000
WGOTHPS 49B0033709 WGOTHPS 45B0033710 WGOTHPS 45B0033711	4 Rows (2 in line axles)	32, eight in each row, 215/75 R 17.5	10000 mm × 3000 mm × 1175 mm	13,850	26,000	1,04,000

6. The above relaxation is subject to the conditions that :—

- (i) The operations of the trailer shall be done only sparingly
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads. Each of such movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.
- (v) The programme of the movement of the trailer should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.
- (vi) The trailer shall be registered individually and not as a combination.
- (vii) If so directed by the Public Works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of

India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

- (viii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (ix) They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.
- (x) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (xi) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10 kms./hour.
- (xii) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.
- (xiii) M/s. Srei Equipment Finance Private Limited, Gurgaon, would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xiv) M/s. Srei Equipment Finance Private Limited, Gurgaon, will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xv) M/s. Srei Equipment Finance Private Limited, Gurgaon will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (xvi) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the trailer owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e., State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India.

7. The trailer shall be registered in the State of Haryana only subject to fulfilment of conditions laid down under Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (invoice, proof of payment of all taxes).

[F.No. RI-11042/1-8 2011-MVL]

NITIN R. GOKARN Jt. Secy.